



# राधा रानी चालीसा

आरती और पूजा विधि सहित

# राधा रानी चालीसा पूजा विधि

राधा रानी चालीसा की पूजा विधि इस प्रकार हैं

- ❖ सूर्योदय से पहले स्नान करें। फिर साफ़ कपड़े पहनें।
- ❖ एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं।
- ❖ उस पर श्री राधा कृष्ण के युगल रूप की प्रतिमा या विग्रह पर फूलों की माला चढ़ाएं।
- ❖ चंदन का तिलक लगाएं. साथ ही श्री कृष्णा भगवान को इत्र अर्पित करें।
- ❖ राधा जी के मंत्रों का जप करें -  
ॐ ह्रीं राधिकायै नमः. ॐ ह्रीं श्रीराधायै स्वाहा
- ❖ राधा चालीसा और राधा स्तुति का पाठ करें।
- ❖ श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की आरती करें।
- ❖ आरती के बाद पीली मिठाई या फल का भोग लगाएं।

## पूजा विधि सामग्री

फूल, अक्षत, चंदन, लाल चंदन, सिंदूर, रोली, सुगंध, धूप, -  
दीप, फल, खीर, मिठाई

# श्री राधा रानी चालीसा

## ॥ दोहा ॥

श्री राधे वृषभानुजा , भक्तनि प्राणाधार ।  
वृन्दाविपिन विहारिणी , प्रानावौ बारम्बार ॥  
जैसो तैसो रावरौ, कृष्ण प्रिय सुखधाम ।  
चरण शरण निज दीजिये सुन्दर सुखद ललाम ॥

## ॥ चौपाई ॥

जय वृषभान कुंवारी श्री श्यामा । कीरति नंदिनी शोभा धामा ॥  
नित्य विहारिणी श्याम अधर । अमित बोध मंगल दातार ॥  
रास विहारिणी रस विस्तारिन । सहचरी सुभाग यूथ मन भावनी ॥  
नित्य किशोरी राधा गोरी । श्याम प्रन्नाधन अति जिया भोरी ॥  
करुना सागरी हिय उमंगिनी । ललितादिक सखियाँ की संगनी ॥  
दिनकर कन्या कूल विहारिणी । कृष्ण प्रण प्रिय हिय हुल्लसवानी ॥









# श्री राधा रानी जी की आरती

आरती राधाजी की कीजै। टेक...  
कृष्ण संग जो कर निवासा, कृष्ण करे जिन पर विश्वासा।  
आरती वृषभानु लली की कीजै। आरती...  
कृष्णचन्द्र की करी सहाई, मुंह में आनि रूप दिखाई।

उस शक्ति की आरती कीजै। आरती...  
नंद पुत्र से प्रीति बढ़ाई, यमुना तट पर रास रचाई।

आरती रास रसाई की कीजै। आरती...  
प्रेम राह जिनसे बतलाई, निर्गुण भक्ति नहीं अपनाई।  
आरती राधाजी की कीजै। आरती...  
दुनिया की जो रक्षा करती, भक्तजनों के दुख सब हरती।

आरती दुःख हरणीजी की कीजै। आरती...  
दुनिया की जो जननी कहावे, निज पुत्रों की धीर बंधावे।

आरती जगत माता की कीजै। आरती...  
निज पुत्रों के काज संवारे, रनवीरा के कष्ट निवारे।  
आरती विश्वमाता की कीजै। आरती राधाजी की कीजै...।



Hi! We're InstaPDF. A dedicated portal where one can download any kind of PDF files for free, **with just a single click.**

<https://instapdf.in>

READ DISCLAIMER